

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर 2015—आश्विन 2, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्र. एफ 15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री व्ही. के. मिश्रा, सेवानिवृत्त, सहायक वन संरक्षक को जिला सागर के लिए जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक के रूप में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिए नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनूप सिंह राजपूत, अपर सचिव.